



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्रतिभार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 27, 1982/अग्रहायण 6, 1904

No. 358] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 27, 1982/AGRAHAYAN 6, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Filing is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 नवम्बर 1982

सं. 282/82 केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सां. कां. निं. 723 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और
नमक अधिनियम, 1941 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पादशुल्क
संशोधन (13) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 50क के पश्चात्
निम्नलिखित नियम अस्तित्व में रहेंगे, अर्थात् —

“50कक कुछ परिस्थिति में किसी कारखाने से देशी उपभोग
के लिए निकासी किए गए कतिपय उत्पादशुल्क माल पर सदल-शुल्क की
बाबत मुजरा (1) केन्द्रीय सरकार, समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा, किसी कारखाने से देशी उपभोग के लिए निकासी किए गए ऐसे
उत्पादशुल्क माल पर सदल-शुल्क की बाबत जो ऐसी निकासी
से अधिक है, मुजरा की, ऐसी मात्रा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते
हूँ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, मंजूरी दे सकेंगे।

(2) कलक्टर, उस उत्पादशुल्क माल के, जिसको यह नियम लागू
होता है, विनिर्माता द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, लिखित
आदेश द्वारा ऐसे विनिर्माता को उत्पाद-शुल्क माल पर सदल-शुल्क की
बाबत ऐसी रकम के बराबर जो उपनियम (1) के अधीन जारी की
गई अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाए, मुजरा की
अनुज्ञा दे सकेंगे।

(3) इस प्रकार अनुज्ञा विनिर्माता, ऐसे प्रश्न में लेखा रखेगा
और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट
करे।

(4) यदि किसी कारखाने से देशी उपभोग के लिए निकासी किए
गए उत्पादशुल्क माल पर सदल-शुल्क में, जिसकी बाबत उपनियम (2)
के अधीन मुजरा अनुज्ञा किया गया है, तत्पश्चात् किसी कारण परिवर्तन
किया जाता है जिसे परिणामस्वरूप, यथास्थिति, विनिर्माता को
प्रतिदाय करना पड़ता या उसके और अधिक शुल्क की रकमों भरनी
पड़नी तो उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञा मुजरा में उपनियम (3) के
अधीन रखे गए नेटों में समायोजन द्वारा अथवा नियम 9 या नियम 173छ
के उपनियम (1) के अधीन रखे गए खासू खाने में समायोजन द्वारा
आनुपातिक रूप से परिवर्तन किया जाएगा या यदि ऐसा समायोजन
किसी कारण से संभव नहीं है तो ऐसा मुजरा विनिर्माता से, यथास्थिति,
सहज वसुली करके या उसे प्रतिदाय करके किया जाएगा।

(5) उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञा शुल्क की बाबत मुजरा का
उपयोग किसी उत्पाद-शुल्क माल पर शुल्क के सदल-शुल्क के लिए किया
जाएगा और ऐसे मुजरा के किसी भी भाग का नकद या चेक द्वारा
प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

[सं. एक. 331/3/82 —टी. वार. पृ०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th November, 1982

No. 282/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 723 (E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (13th Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Central Excise Rules, 1944, after rule 56A, the following rule shall be inserted namely :

“6AA. Credit of duty paid on certain excisable goods cleared from a factory for home consumption under certain circumstances.—(1) The Central Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, provide for the grant of a credit of the duty paid on such excisable goods cleared from a factory for home consumption in excess of such clearances, to such extent, and subject to such conditions, as may be specified in the notification.

(2) The Collector may, on application made in this behalf by a manufacturer of the excisable goods to which this rule applies, by order in writing, permit such manufacturer to take credit of the duty paid on such excisable goods equal to an amount determined in accordance with the provisions of the notification issued under sub-rule (1).

(3) A manufacturer so permitted shall maintain an account in such form, and shall follow such procedure, as the Collector may specify in this behalf.

(4) If the duty paid on the excisable goods cleared from factory for home consumption in respect of which credit has been allowed under sub-rule (2), be varied subsequently due to any reason resulting in payment of refund to, or, as the case may be, recovery of more duty from the manufacturer, the credit allowed under sub-rule (2) shall be varied proportionately by adjustment in the account maintained under sub-rule (3) or in the account-current maintained under rule 9 or sub-rule (1) of rule 173G or, if such adjustment be not possible for any reason, by cash recovery from or, as the case may be, refund to the manufacturer.

(5) The credit of duty allowed under sub-rule (2) shall be utilised towards payment of duty on any excisable goods and no part of such credit shall be refunded in cash or by cheque.”

[F. No. 331/3/82-TRU]

सं० 283/82 केन्द्रीय उत्पादशुल्क

सां० कां० नि० 724 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पादशुल्क (टेक्स्टाइल और टेक्स्टाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (2) और विलेय अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 50 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 56क के उपनियम (1) के अनुसरण में निदेश देती है कि इससे उपायय सारणी क और सारणी ख के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पादशुल्क माल की बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट माल कहा गया है) जो केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की (जिसे इसमें इसके

पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम कहा गया है) पहली अनुसूची की ऐसी मद सं० के अधीन आता है और जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट और जिसकी किसी कारखाने से वैश्वी उपयोग के लिए, 1 मार्च, 1982 से प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रोत्साहन अवधि कहा गया है), आधार्गिक निकासी से अधिक निकासी की गई है,—

(क) किसी मामले में जहाँ विनिर्दिष्ट माल पर शुल्क केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम के अधीन मूल्य के प्रति निर्देश से उद्योगीय है और ऐसे विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम के अधीन प्रभाव शुल्क की प्रभावी दर मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है वहाँ विनिर्दिष्ट माल की ऐसी अधिक निकासी पर संदत्त उत्पादशुल्क के 1/5 भाग के बराबर रकम का मुजरा; और

(ख) किसी अन्य मामले में विनिर्दिष्ट माल की अधिक निकासी पर संदत्त उत्पादशुल्क के 1/10 भाग के बराबर रकम का मुजरा उक्त सारणियों के स्तम्भ (5) में, विनिर्दिष्ट हों, यदि कोई हो, और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकेगा—

(i) उक्त सारणियों के स्तम्भ (3) में वर्णित माल की निकासी (जिसके अन्तर्गत आधार्गिक निकासी भी है), उक्त सारणियों के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सारणियों के प्रत्येक क्रम संख्याक की बाबत उक्त सारणियों के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सगणना के लिए, यूनिट के अनुसार प्रयुक्त सगणित की जाएगी और प्रत्येक ऐसे क्रम संख्याक की बाबत, उक्त क्रम संख्याक के सामने उक्त सारणियों के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट गनो माल की निकासी का कुल योग सगणना में लिया जाएगा।

(ii) विनिर्दिष्ट माल की निकासियों का (जिसके अन्तर्गत आधार्गिक निकासी भी है) अवधारण करने में उक्त किसी या सभी अधिनियमों के अधीन उद्योगीय सम्पूर्ण उत्पादशुल्क से छूट प्राप्त विनिर्दिष्ट माल की निकासी और निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट माल की निकासी भी सगणना में ली जाएगी।

(iii) किसी भी विनिर्माता को 1 अप्रैल, 1983 के पूर्व मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(iv) किसी ऐसे कारखाने की बाबत जिसमें विनिर्दिष्ट माल की निकासी—

(क) 1 अप्रैल, 1979 को या उसके पश्चात् पहली बार की गई थी; या

(ख) वित्तीय वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान नहीं की गई थी,

मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(v) आधार्गिक निकासी के 160 प्रतिशत से अधिक विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर संदत्त उत्पादशुल्क की बाबत मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(vi) आधार्गिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि की बाबत सारणी क के क्रम सं० 21, 22, 23 और 24 के सामने वर्णित विनिर्दिष्ट माल की (जिसे इसके पश्चात् इस खंड में उक्त विनिर्दिष्ट माल कहा गया है) निकासी का अवधारण करने के लिए, उक्त विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए आधार्गिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि के दौरान बाहर से कारखाने में प्राप्त उक्त विनिर्दिष्ट माल की मात्रा आधार्गिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि के दौरान की गई उक्त विनिर्दिष्ट माल की निकासी से क्रमशः घटा दी जाएगी।

(vii) ऊपर खंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, आधारिक वर्ष या प्रतिमाह्न वर्ष की बाबत उक्त सारणी क के क्रम सं० 21, 22, 23 और 24 के सामने विनिर्दिष्ट माल का (जिसे इससे पञ्चान इस खंड में उक्त विनिर्दिष्ट माल कहा गया है) अवधारण करने के लिए, उक्त विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए ऐसी अवधियों के दौरान उत्पादन कारखाने के भीतर की विनिर्दिष्ट माल की निकासी की संगणना नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ—

(i) "आधारिक निकासी से—

(क) ऐसे कारखाने के मामले में जो किसी कारण से आधारिक अवधि के दौरान किसी एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए बन्द नहीं रहा था—

(i) उक्त सारणी "क" के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत, आधारिक अवधि के दौरान ऐसे कारखाने से ऐसे माल की निकासी का 110 प्रतिशत अभिप्रेत है; और

(ii) उक्त सारणी "ख" के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत, आधारिक अवधि के दौरान ऐसे कारखाने से ऐसे माल की निकासी का 120 प्रतिशत अभिप्रेत है।

(ख) ऐसे कारखाने के मामले में, जो किसी कारणवश आधारिक वर्ष के दौरान एक समय में पंद्रह दिन से अधिक की अवधि के लिए बंद रहा था, उपरोक्त खंड (क) यथास्थिति, उपखंड (i) के अधीन या गुणनखंड 365/365-य द्वारा गुणा करके उपखंड (ii) के अधीन अवधारित निकासी अभिप्रेत है जहां यथास्थिति अवधि या अवधियों में समाविष्ट कुल दिन की संख्या का घातक करता है जिसके दौरान कारखाना इस प्रकार बंद रहा था।

(2) "आधारिक अवधि" से 1 मार्च, 1981 को और से प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है।

(3) "संवत्स उत्पादशुल्क" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और तम अधिनियम, 1944 (1944 का 1), प्रतिरिक्त उत्पादशुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइलवस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) और विल अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 50 के अधीन संवत्स उत्पादशुल्क यदि कोई हो, का कुल योग अभिप्रेत है।

(4) "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन उद्घरणयोग्य शुल्क की प्रभावी दर" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (i) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के साथ पठित, जो तत्समयप्रवृत्त है जो उस अधिसूचना से भिन्न है जिसमें ऐसे माल पर, की बाबत कोई छूट देने या मुजरा अनुज्ञात करने या कटौती देने का उपबंध करते हैं और जो ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल या संघटक पुर्जों पर पहले से ही संवत्स किसी उत्पाद शुल्क की बाबत मुजरा देने या उसके बराबर कटौती करने के लिए किसी छूट के लिए उपबंध है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर अभिप्रेत है।

(5) मूल्य से,

(क) उक्त सारणी ख के क्रम सं० 1 से 17 के सामने विनिर्दिष्ट माल के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित मूल्य अभिप्रेत है।

(ख) उक्त सारणी ख के क्रम सं० 18 से 23 के सामने विनिर्दिष्ट माल की बाबत यथास्थिति ऊपर खंड (क) के अधीन या भारत सरकार के विल मंत्रालय, राजस्व और बीमा विभाग की अधिसूचना सं० 120 / 75 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 30 अप्रैल, 1975 के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित मूल्य अभिप्रेत है।

सारणी—क

क्रम सं० केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची का मूल संख्यांक	माल का विवरण	संगणना के लिए इकाई	गर्त
1.	2	3	4
1. 14कक	सोडा शार	भार	
2. 14कक(1)	केलियम कार्बाइड, क्लीविंग पेट्ट और क्लीविंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडा शार्ड-कार्बोनेट, हाइड्रोजन परक्साइड और पोटैशियम परमैंगनेट।	भार	
3. 14ख	कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटैश	भार	
4. 14ग	ग्लिसरीन	भार	
5. 14घघ	संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पाद	भार	
6. 14छ	हाइड्रोक्लोरिक और मल्लमूरिक अम्ल	भार	
7. 14(ख)(i)	आक्सीजन	आयतन	

1	2	3	4	5
8. 14ज(ii),(iii), (iv) और (vi)	क्लोरिन, अमोनिया, कार्बनिक अम्ल (कार्बन डाइ-ब्रोमाइड), एसिटिलीन	भार		
9. 14जज	उर्वरक अर्थात् कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट	भार		
10. 15क(i)	कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री तथा अन्य सामग्री	भार		
11. 15कक	कार्बनिक सरफेस एक्विव एजेंट (साबुन से भिन्न), सरफेस एक्टिव निमित्तियां और धुलाई निमित्तियां	भार		
12. 17(i)	अविलेपित और विलेपित मुद्रण और लेखन कागज (पोस्टर कागज से भिन्न)	भार		परन्तु यह कि कारखाने से निकासी किया गया अविलेपित मुद्रण और लेखन कागज (पोस्टर कागज से भिन्न) की बाबत विनिर्माता ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 108/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 जून, 1981 द्वारा दी गई छूट का उपयोग नहीं किया गया है या नहीं करता है : परन्तु यह भी कि ऐसे कागज का उत्पादन लुगदी से किया गया है।
13. 17(2)	कागज बोर्ड और अन्य सभी प्रकार का कागज	भार		परन्तु यह कि ऐसे कागज बोर्ड या कागज का उत्पादन लुगदी से किया गया है।
14. भव संख्यांक 18 की उपमद I	स्टेपल फाइबर और सेलुलोजिक मूल का टो	भार		
15. " "	स्टेपल फाइबर और असेलुलोजिक मूल का टी-एक्राइलिक फाइबर	भार		
16. " "	स्टेपल फाइबर और असेलुलोजिक मूल का टो-पॉलिस्टर फाइबर	भार		
17. " "	क्रम सं० 15 या क्रम सं० 16 के अन्तर्गत न आने वाली स्टेपल फाइबर और असेलुलोजिक मूल का टो	भार		
18. भव संख्यांक 18 की उपमद II	कृत्रिम फिलामेंट सूत जो पूर्णतः सेलुलोजिक उत्पादों या सम्मोषित सेलुलोज या दोनों से मिल कर बना है	भार		
19. " "	नाइलोन फिलामेंट सूत	भार		
20. " "	पॉलिस्टर फिलामेंट	भार		
21. 26	इस्पात की सिल्लियां जिनके अन्तर्गत पिछला इस्पात स्क्रैप (स्टील मेल्टिंग स्क्रैप) भी है।	भार		
22. 26क	तांबा	भार		परन्तु यह कि ऐसे तांबे का एकीकृत अयस्क आधारित संयंत्र में विनिर्माण किया जाता है।
23. 26कक	लोह और इस्पात उत्पाद	भार		परन्तु यह कि ऐसे लोह या इस्पात उत्पादों का किसी एकीकृत अयस्क आधारित संयंत्र या किसी कारखाने में विद्युत शक्ति की सहायता से विनिर्माण किया जाता है।
24. 26ख	जस्ता	भार		परन्तु यह कि ऐसे जस्ता का एकीकृत अयस्क आधारित संयंत्र में विनिर्माण किया जाता है।
25. 28	टिन प्लेट और टिन की चादर	भार		

1	2	3	4	5
26. 30ख		मोटर स्टार्टर	संख्या	
27. 31(1)		विद्युत बैटरियाँ (शुष्क किस्म की धातु आवरण से ढकी हुई बैटरियों से भिन्न)	संख्या	
28. 31(1)		विद्युत बैटरियों (शुष्क किस्म की धातु आवरण से ढकी हुई बैटरियाँ)	संख्या	
29. 31(2)		विद्युत बैटरियाँ (भंडारण किस्म की)	संख्या	
30. 32(1)		छोटे लैम्प और दृष्य सूचक बल्ब जिनका उपयोग टेलीफोन और तार के स्विच बोर्डों और सहबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जाता है से भिन्न निर्वात और गैस भरे विद्युत बल्ब।	संख्या	
31. 32(1)		छोटे विद्युत बल्ब और दृष्य सूचक बल्ब जिनका उपयोग टेलीफोन और स्विच बोर्डों और सहबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जाता है।	संख्या	
32. 32(2)		फ्लोरोसेन्ट प्रकाश ट्यूब	संख्या	
33. 32(3)		सोडियम और मर्करी वाष्प निरावेशित लैम्प	संख्या	
34. 341(1)		दोपहिया मोटर यान जिनके इंजिन की क्षमता 100 घन सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।	संख्या	
35. 341(1)		सं० 34 के अन्तर्गत आने वाले दोपहिया मोटर यान	संख्या	
36. 341(1)		तीन-पहिया मोटर यान	संख्या	
37. 341(2)		सैलून कार से भिन्न मोटर यान	संख्या	
38. 341(3)		सैलून कार से भिन्न मोटर यान	संख्या	
39. 34(ii)		ट्रेक्टर जिसके अन्तर्गत कृषि ट्रेक्टर भी हैं	संख्या	
40. 34ख		संकर्ष ट्रेक	संख्या	
41. 63		तार के रस्से	भार	--
42. 64		कार्बन काजल	भार	--
43. 65		रब व प्रसंस्करण रसायन	भार	--
44. 68		कंक्रीट मिश्रक	संख्या	--
45. 68		ग्रेडरस उत्खनित, बुलडोजर और मिट्टी हटाने वाले अन्य उपस्कर	संख्या	--
46. 68		लाकामोटिव	संख्या	--
47. 68		रेल डिब्बे	संख्या	--

सारणी ख

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची का मद संख्यांक	माल का विवरण	संगणना के लिए इकाई	शर्तें
1	2	3	4	5
1.	14	वर्णक, रंग, पेंट, इनुमल, वानिश कालिख और सैलुसीस लेकर।	परिमाण	--
2.	16	टायर		परिमाण परन्तु यह कि कारखाने से निकासी किए गए टायर की बाबत जिम्मेदारी ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 107/81, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 24 अप्रैल, 1981

1	2	3	4	5	6
					द्वारा दी गई छूट का उपयोग नहीं किया है या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 82 केन्द्रिय उत्पाद शुल्क सारिख नवम्बर, 1982 द्वारा दी गई छूट का उपयोग नहीं करता है।
3 16	दूध	परिमाण			
4 16	फलेप	मूल्य	--		
5 16क (4)	पारेषण-पट्टे, प्रवहण-पट्टा या एलीवेटर पट्टे या वस्-कनीकृत रबड़ का पट्टा लगाना।	मूल्य	-		
6 16कक 3	संश्लिष्ट रबड़ जिसके सम्मिलित संश्लिष्ट रबड़ लेटेक्स और पूर्ण वल्कनीकृत रबड़ लेटेक्स भी है	मूल्य			
7 29	अन्तर्वहन इंजन	मूल्य	--		
8 सब 30 की उपसमूह (क), (ख) और और ग	विद्युत मीटर	मूल्य	--		
9 30क	शक्ति से चलने वाले पम्प	मूल्य	--		
10 33ख	विजली के तार और केबल	मूल्य	--		
11 45	भार अथवा धारित करने की मशीनरी और उपकरण	मूल्य	--		
12 49	रोलिंग बेयरिंग	मूल्य	--		
13 50	सभी प्रकार के वैल्विंग एलेक्ट्रोड	मूल्य	--		
14 51	विशेषित अपघर्षक और चर्षक चक्र	मूल्य	--		
15 51क	घोजार	मूल्य	--		
16 62	घोजार टिप	मूल्य	--		
17 67	ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सौर एनोड	मूल्य	--		
18 68	मशीन घोजार	मूल्य	--		
19 68	वायु और गैस कंप्रेसर	मूल्य	--		
20 68	वायुसर	मूल्य	--		
21 68	केन	मूल्य	--		
22 68	प्रयोगिक बूल्हे और भट्टिया	मूल्य	--		
23 68	उच्चताप सह ईंध	मूल्य	--		

बी० लक्ष्मी कुमारन, सचिव सचिव

NO. 283/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 724(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 56AA of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and sub-section (4) of section 50 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government hereby directs that in respect of excisable goods of the description specified in column (3) of Table A and Table B hereto annexed [hereinafter referred to as the specified goods] and falling under such Item number of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) [hereinafter referred to as the Central Excises Act], as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Tables and cleared from a factory for home consumption during the period commencing on and from the 1st day of March, 1982 and ending with the 28th day of February, 1983 hereinafter referred to as the incentive period, in excess of the base clearances,

(A) in a case where duty of excise on specified goods is chargeable under the Central Excises Act with reference to value and the effective rate of duty leviable under the Central Excises Act on such specified goods is not more than 20 per cent. ad valorem, a credit of an amount equal to 1/5th of the duties of excise paid on such excess clearances of the specified goods; and

(B) in any other case, a credit of an amount equal to 1/10th of the duties of excise paid on such excess clearances of the specified goods,

may be granted subject to the conditions, if any, specified in column (5) of the said Tables and the conditions specified below:—

(i) The clearances (including the base clearances) of the specified goods mentioned in column (3) of the said Tables shall be computed separately in respect of each

serial number of the Tables specified in the corresponding entry in column (1) of the said Tables in terms of the unit for calculation specified in the corresponding entry in column (4) of the said Tables and in respect of each such serial number, the aggregate of the clearances of all the goods specified in column (3) of the said Tables against the said serial number shall be taken into account.

- (ii) In determining the clearances (including the base clearances) of the specified goods, the clearances of the specified goods exempted from the whole of the duties of excise leviable thereon under any or all of the said Acts and the clearances of the specified goods for export shall also be taken into account.
- (iii) No credit shall be allowed to any manufacturer before the 1st day of April, 1983.
- (iv) No credit shall be allowed in respect of a factory from which clearances of the specified goods—
- were effected for the first time on or after the 1st day of April, 1979; or
 - were not effected during the financial years 1979-80, 1980-81 and 1981-82.
- (v) No credit shall be allowed in respect of the duties of excise paid on the clearances of the specified goods in excess of 160% of the base clearances.
- (vi) For determining the clearances of the specified goods mentioned against serial numbers 21, 22, 23 and 24 of the said Table A (hereafter in this clause referred to as the said specified goods) in respect of the base period or the incentive period, the quantity of the said specified goods received in the factory from outside during the base period or the incentive period for the manufacture of the said specified goods shall respectively be deducted from the clearances of the said specified goods effected during the base period or the incentive period.
- (vii) Notwithstanding anything contained in clause (ii) above, for determining the clearances of the specified goods mentioned against serial numbers 21, 22, 23 and 24 of the said Table A (hereafter in this clause referred to as the said specified goods) in respect of the base period or the incentive period, the clearances of the said specified goods effected within the factory of production during such periods for use in the manufacture of the said specified goods shall not be taken into account.

Explanation:—For the purposes of this notification,—

(1) “base clearances”,—

(a) in the case of a factory which had not remained

closed for a period of more than 15 days at one time during the base period due to any reason—

(i) in respect of goods specified in column (3) of the said Table A, means 110% of the clearances of such goods from such factory during the base period; and

(ii) in respect of goods specified in column (3) of the said Table B, means 120% of the clearances of such goods from such factory during the base period;

(b) in the case of a factory which had remained closed for a period of more than 15 days at one time during the base period due to any reason, means the clearances as determined under sub-clause (i) or, as the case may be, sub-clause (ii) of clause (a) above multiplied by the

365

factor $\frac{365}{365-X}$, where X denotes the total number

days comprised in the period or, as the case may be, periods during which the factory was so closed.

- (2) “base period” means the period commencing on and from the 1st day of March, 1981 and ending with the 28th day of February, 1982.
- (3) “duties of excise paid” means the sum total of the duties of excise, if any, paid under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and section 50 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982).
- (4) “effective rate of duty leviable under the Central Excises Act” means the rate of duty specified in the First Schedule to the Central Excises Act, read with any notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force (other than a notification providing for any exemption for giving credit with respect to, or reduction of duty of excise on such goods equal to, any duty of excise already paid in the raw material component parts used in the production or manufacture of such goods).
- (5) “value”,—
- in relation to the goods specified against serial numbers 1 to 17 of the said Table B, means value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises Act;
 - In respect of the goods specified against serial numbers 18 to 23 of the said Table B, means value as determined under clause (a) above or, as the case may be, in accordance with the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, No. 120/75—Central Excises, dated the 30th April, 1975.

TABLE—A

S. No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944	Description of goods	Unit for calculation	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	14A	Soda Ash	Weight	
2.	14AA (1)	Calcium carbide, bleaching paste and bleaching powder, sodium hydrosulphite,	Weight	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		bicarbonate of soda, bichromates of potassium or sodium, hydrogen peroxide and potassium permanganate.		
3. 14B		Caustic soda and caustic potash	Weight	
4. 14C		Glycerine	Weight	
5. 14DD		Synthetic Organic products	Weight	
6. 14G		Hydrochloric and Sulphuric Acids	Weight	
7. 14H(i)		Oxygen	Volume	
8. 14H(ii), (iii), (iv) and (vi).		Chlorine, Ammonia, Carbonic Acid (carbon dioxide) and Acetylene.	Weight	
9. 14HH		Fertilisers, namely, calcium ammonium nitrate and ammonium sulphate.	Weight	
10. 15A(1)		Artificial or synthetic resins and plastic materials and other materials.	Weight	
11. 15AA		Organic surface active agents (other than soap); Surface-Active preparations and washing preparations.	Weight	
12. 17(1)		Uncoated and coated printing and writing paper (other than poster paper).	Weight	Provided that in respect of uncoated and coated printing and writing paper (other than poster paper) cleared from the factory, the manufacturer has not availed of and does not avail himself of the exemption contained in Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 108/81-Central Excises, dated the 24th June, 1981: Provided also that such paper has been produced out of pulp.
13. 17(2)		Paper board and all other kinds of paper.	Weight	Provided that such paper board or paper has been produced out of pulp.
14. Sub-item I of Item No. 18.		Staple fibre and tow of cellulosic origin.	Weight	
15. „		Staple fibre and tow of non-cellulosic origin-acrylic fibre.	Weight	
16. „		Staple fibre and tow of non-cellulosic origin-Polyester fibre.	Weight	
17. „		Staple fibre and tow of non-cellulosic origin, not falling under S. No. 15 or S. No. 16.	Weight	
18. Sub-item II of Item No. 18.		Man-made filament yarn consisting entirely of cellulosic derivatives or regenerated cellulose or both.	Weight	
19. „		Nylon filament yarn	Weight	
20. „		Polyster filament yarn	Weight	
21. 26		Steel ingots including steel melting scrap.	Weight	
22. 26A		Copper	Weight	Provided that such copper is manufactured in an integrated ore-based plant.
23. 26AA		Iron or steel products	Weight	Provided that such iron or steel products are manufactured in an integrated ore-based steel plant or in a factory with the aid of electric furnace.
24. 26B		Zinc	Weight	Provided that such zinc is manufactured in an integrated ore-based plant.
25. 28		Tin plates and tinned sheets	Weight	
26. 30B		Motor starters	Number	
27. 31(1)		Electric batteries (Dry type-other than metal jacketed batteries).	Number	
28. 31(1)		Electric batteries (Dry type-metal jacketed batteries).	Number	
29. 31(2)		Electric batteries (storage type)	Number	

1	2	3	4	5
30.	32(1)	Vacuum and gas filled electric bulbs other than miniature lamps and visual indicator bulbs used in telephonic and telegraphic switch boards and for allied purposes.	Number	
31.	32(1)	Miniature electric bulbs and visual indicator lamps used in telephonic and telegraphic switch boards and for allied purposes.	Number	
32.	32(2)	Fluorescent lighting tubes	Number	
33.	32(3)	Sodium and Mercury vapour discharge lamps.	Number	
34.	34I(1)	Two-wheeled motor vehicles of engine capacity not exceeding 100 cubic centimetres.	Number	
35.	34I(1)	Two-wheeled motor vehicles not falling under S. No. 34.	Number	
36.	34I(1)	Three-wheeled motor vehicles	Number	
37.	34I(2)	Motor vehicles other than saloon cars	Number	
38.	34I(3)	Motor vehicles other than saloon cars	Number	
39.	34II	Tractors, including agricultural tractors	Number	
40.	34B	Work trucks	Number	
41.	63	Wire ropes	Weight	
42.	64	Carbon black	Weight	
43.	65	Rubber processing chemicals	Weight	
44.	68	Concrete Mixers	Number	
45.	68	Graders, Excavators, Bulldozers and other earth moving equipments.	Number	
46.	68	Locomotives	Number	
47.	68	Railway wagons	Number	

TABLE B

S. No	Item No. of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944	Description of goods	Unit for calculation	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	14	Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers.	Value	
2.	16	Tyres	Value	Provided that in respect of tyres cleared from the factory, the manufacturer has not availed of the exemption contained in Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 107/81-Central Excises, dated the 24th April, 1981, or does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 268/82-Central Excises, dated the 13th November, 1982.
3.	16	Tubes	Value	
4.	16	Flaps	Value	
5.	16A(4)	Transmission, conveyor or elevator belts or belting of vulcanised rubber.	Value	
6.	16AA	Synthetic rubber, including synthetic rubber latex and pre-vulcanised synthetic rubber latex.	Value	

1	2	3	4	5	6
7.	29	Internal Combustion Engines	Value	—	
8.	Sub-items (A), (B) & (C) of Item 30.	Electric Motors	Value		
9.	30A	Power Driven pumps	Value		
10.	33B	Electric wires and cables	Value		
11.	45	Machinery and appliances for determination of weight.	Value		
12.	49	Rolling bearings	Value		
13.	50	Welding electrodes, all sorts	Value		
14.	51	Coated abrasives and grinding wheels	Value		
15.	51A	Tools	Value		
16.	62	Tools tips	Value		
17.	67	Graphite electrodes and anodes	Value		
18.	68	Machine tools	Value		
19.	68	Air and gas compressors	Value		
20.	68	Boilers	Value		
21.	68	Cranes	Value		
22.	68	Industrial ovens and furnaces	Value		
23.	68	Refractory bricks	Value		

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.